

अप्रत्याशित के लिए तैयार करें - अपने वित्त को व्यवस्थित करें



यदि आप घायल या अक्षम हो जाते हैं, तो आपके वित्तीय मामलों को क्रम में रखना, कम या अधिक अवधि के लिए आपके वित्त का प्रबंधन करने में मदद करने वाले किसी व्यक्ति के लिए आसान कर देगा।

एक फ़ाइल रखें जिसमें यह शामिल हैं:



वित्तीय संपत्ति

- अपने सभी बैंक खातों, निवेश खातों और क्रेडिट कार्डों की सूची बनाएं।
- पते और संपर्क व्यक्ति (यों) को शामिल करें।
- फ़ाइल में नवीनतम अकाउंट स्टेटमेंट (टों) की एक प्रति रखें।



आमदनी के स्रोत

- अपनी आय के स्रोतों की सूची (वार्षिकी, पेंशन, लाभ) बनाएं।
- यह शामिल करें कि दस्तावेजों को और संपर्क जानकारी को कहाँ दर्ज किया है।



अन्य दस्तावेज़ और कीमती सामान

- पूर्व नियोजन व्यवस्था और समझौते।
- अपनी बीमा पॉलिसियों - जीवन और संपत्ति - पॉलिसी नंबर और संपर्क जानकारी को सूचीबद्ध करें।
- व्यक्तिगत दस्तावेजों की प्रतियां जैसे पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, विवाह/तलाक प्रमाण पत्र, आपके घर के दस्तावेज़ आदि।
- किसी भी कीमती सामान जैसे कला या गहनों का मूल्यांकन और वे जहाँ स्थित हैं।
- सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स की लोकेशन और चाबी कहाँ से प्राप्त करनी है।



नियमित व्यय, भुगतान और ऋण

- सभी नियमित बिलों (यूटिलिटीज़, बीमा प्रीमियम, लॉन देखभाल सेवाओं आदि) और भुगतानों की आवृत्ति की एक सूची रखें।
- स्वचालित कटौती/भुगतान के लिए जानकारी शामिल करें।
- अपने ऋणों (जैसे मॉर्टगेज, लाइन ऑफ़ क्रेडिट या लोन) और ऋण धारक की प्रासंगिक जानकारी की सूची बनाएं।



संपत्ति के दस्तावेज

- दस्तावेजों (वसीयत, पावर ऑफ़ अटॉर्नी) की सूची बनाएं और यह कि उन्हें कहां खोजना है।
- उन व्यक्तियों की संपर्क जानकारी शामिल करें जिन्होंने दस्तावेज तैयार किए हैं या जिन्हें वकील या एग्जीक्यूटिव के रूप में नामित किया गया है।

इसके अलावा, कोई भी ऑनलाइन खाते और पासवर्ड से सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक्स पर विचार करें, जिसे किसी को एक्सेस करने की आवश्यकता हो सकती है। इस जानकारी को एक फ़ाइल में रखें। जिस व्यक्ति पर आप विश्वास करते हैं उनसे जानकारी साझा करें या उनको बताएं कि जानकारी कहां प्राप्त करनी है। याद रखें कि यदि आप फ़ाइल/फ़ोल्डर को एक सेफ़ या सेफ्टी डिपॉज़िट बॉक्स में रखते हैं, तो हो सकता है कि यह समय पर ना मिले जब तक कि किसी को यह नहीं पता कि चाबी कहां से ढूंढनी है।

Ontario Securities Commission

20 Queen St. W., 22nd Floor, Toronto, Ontario M5H 3S8

Tel: 1-877-785-1555 Email: inquiries@osc.gov.on.ca

[GetSmarterAboutMoney.ca](https://www.getsmarteraboutmoney.ca)

[f GetSmarterAboutMoney](https://www.getsmarteraboutmoney.ca) [@smarter_money](https://twitter.com/smarter_money)



ONTARIO
SECURITIES
COMMISSION



Ontario